



204986 - क्या उस आदमी का हज्ज सही है जिसने अपना कर्ज भुगतान नहीं किया है ?

प्रश्न

मैं वर्ष 1422 हिज्री में हज्ज करने के लिए गया। लेकिन मेरे पास कुछ लोगों के कर्ज -ऋण- थे, जिसका कारण यह था कि मैंने कुछ लोगों को कर्ज दिए थे तो उन्होंने मुझे धोखा दिया और वह मुझे नहीं वापस किए और मैं ही इन पैसों को लौटाने का जिम्मेदार हूँ। मैंने एक विद्वान से हज्ज के जायज़ होने के बारे में प्रश्न किया जबकि अभी मैंने कर्ज नहीं चुकाया है : तो उन्होंने उत्तर दिया : हाँ, जायज़ है ; क्योंकि तुझे पता है कि तू इन शा अल्लाह उसे भुगतान कर देगा।

जब मैंने उसी विषय के बारे में आपका जवाब पढ़ा तो उसे उससे विभिन्न पाया जो मुझसे कहा गया था।

तो अब प्रश्न यह है कि क्या मेरा हज्ज मकबूल है ?

क्योंकि मैं हज्ज के लिए गया, जबकि मैंने अपने उपर अनिवार्य कर्ज का भुगतान नहीं किया और न तो मैंने कर्ज देनेवालों से अनुमति ली।

यदि मेरा हज्ज मकबूल नहीं है तो मैं क्या करूँ ? यदि पहला हज्ज ही इस्लाम का हज्ज है और दूसरा सुन्नत समझा जाता है।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

किसी प्रश्न करने वाले के लिए इबादतों के कबूल होने के बारे में प्रश्न करना और जवाब देने वाले के लिए उसके बारे में जवाब देना उचित नहीं है ; क्योंकि उनके कबूल होने का मामला अल्लाह की ओर है, बल्कि प्रश्न और उत्तर इबादतों के सही होने, उसकी शर्तों और अर्कान के पूरा होने के बारे में किया जायेगा।

जिसने इस हाल में हज्ज किया कि उसके ऊपर दूसरों के कर्ज का बकाया है : तो उसका हज्ज सही है यदि उसके अर्कान और शर्तें पूरी हैं, और माल या कर्ज का हज्ज के सही होने से कोई संबंध नहीं है।

जबकि बेहतर यह है कि जिसके ऊपर कर्ज अनिवार्य है वह हज्ज न करे, और उस धन को जिसे वह हज्ज में खर्च करना चाहता है कर्ज में लगा दे, और शरीअत की दृष्टि से वह सक्षम नहीं है।

इस विषय में आपके सामने स्थयी समिति के विद्वानों के फतावे प्रस्तुत हैं :



1- वे कहते हैं - जबकि उनसे हज्ज के लिए कर्ज लेनेवाले के बारे में प्रश्न किया गया - :

"इन शा अल्लाह तआला हज्ज सही है, और आपका धन राशि कर्ज लेना हज्ज के सही होने को प्रभावित नहीं करेगा।"

शैख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़ाक अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान.

फतावा अल-लजनह अद्दाईमा लिल-बुहूस अल-इलमिय्यह वल-इफ्ता" (11/42) से समाप्त हुआ।

2- उन्होंने ने कहा :

"हज्ज के अनिवार्य होने की शर्तों में से : सक्षमता है, और सक्षमता में से : आर्थिक सक्षमता है, और जिसके ऊपर कर्ज अनिवार्य है जिसका उससे तक्राज़ा किया जा रहा है, इस तौर पर कि कर्ज वाले उस आदमी को हज्ज से रोक रहे हैं सिवाय इसके कि वह उनके कर्ज को चुका दे : तो ऐसा आदमी हज्ज नहीं करेगा ; क्योंकि वह सक्षम नहीं है। और अगर वे उससे कर्ज का मुतालबा नहीं कर रहे हैं और वह उनके बारे में जानता है कि वे सहिष्णुता वाले हैं तो उसके लिए जायज़ है, और हो सकता है कि उसका हज्ज उसके कर्ज की अदायगी के लिए अच्छा कारण बन जाए।"

शैख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़ाक अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान

"फतावा अल-लजनह अद्दाईमा लिल-बुहूस अल-इलमिय्यह वल-इफ्ता" (11/46) से समाप्त हुआ।

तथा प्रश्न संख्या (41739) का उत्तर देखें।